



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1977/आषाढ़ 15, 1899

No. 288] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1977/ASADHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th July 1977

S.O 523(E)—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Tamil Nadu in the Council of States by reason of the election of Shri D C John alias Valampuri John having been declared void,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Tamil Nadu to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 25th July, 1977 (Monday).

[No. 100/CS-TN/6/74(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1977

का० आ० 523 (अ).—श्री डी० सी० जोहन उर्फ वालमपुरी जोहन का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण राज्य सभा में तामिलनाडु राज्य की आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग तमिलनाडु राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 25 जुलाई, 1977 (सोमवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/रा० स०-त० ना०/6/74-(1)]

S.O. 524(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-TN/6/74(1), dated 6th July, 1977—

- (a) 13 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations,
- (b) 14 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 16 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 23 July, 1977 (Saturday), as the date on which a pool shall, if necessary, be taken, and
- (e) 25 July, 1977 (Monday) as the date before which the election shall be completed

[No 100/CS-TN/6/74(2)]

का० आ० 524(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-त०-ना०/6/74(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 13 जुलाई, 1977 (बुधवार) ,
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 14 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 16 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसकी, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 23 जुलाई, 1977 (शनिवार); तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 25 जुलाई, 1977 (सोमवार)

एतद्वारा नियत करता है ।

[सं० 100 रा० स०-त० ना० 6/74(2)]

S.O. 525(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 3.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/6/74 (1), dated 6 July, 1977

[No. 100/CS-TN/6/74(3)]

का० आ० 525 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-त० ना० 6/74(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वार्द्ध से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[स० 100/रा० सं०-त० ना०/6/74(3)]

S.O. 526(E).—In pursuance of the provision of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby designates the Secretary, Legislative Assembly Department, Tamil Nadu, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/6/74 (1), dated 6 July, 1977

[No. 100/CS-TN/6/74(4)]

का० आ० 526 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग तमिलनाडु सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-त० ना०/6/74(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, तमिलनाडु विधान सभा विभाग को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है ।

[स० 100/रा० सं०-त० ना०/6/74(4)]

S.O. 527(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Legislative Assembly Department, Tamil Nadu, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/6/74(1), dated 6 July, 1977 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-TN/6/74(5)]

By Order,

A. N. SEN, Secy

का० आ० 527 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना

सं० 100/रा० स०-न० ना०/6/74(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उप सचिव, तमिलनाडु विधान सभा विभाग को, रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100 रा० स०-त० ना०/6/74(5)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977